



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 495]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 1978/ कार्तिक 17, 1900

No. 495]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 1978/KARTIKA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1978

का० भा० 637(अ)/18 ई/आई०डी०आर०ए०/78,—केन्द्रीय सरकार
ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का
65) की धारा 18 कक के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं०का०भा०
337 (अ) दिनांक 16 मई, 1977, द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण
निगम लिमिटेड, 19 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता को मैसर्स खारवाह
कम्पनी लिमिटेड, 7 वेलेजली प्लेस, कलकत्ता (जिसे इसके पश्चात् उक्त
औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अधिधि के
लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18क की
उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपबद्ध
अनुसूची में ऐसे प्रपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती
है जिसके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)
उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा
18कक के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध	ये प्रपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाओं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियाँ और तुलन पत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।
धारा 169	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा।
धारा 210(1)	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियाँ और तुलन पत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। यह छूट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी।

1	2
धारा 217	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा, बशर्ते कि लेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।
धारा 225	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा, बशर्ते कि लेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।
धारा 293	इस धारा को उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा।

(सं० का० 22/20/78-जूट)

एन० एस० वैद्यनाथन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th November, 1978

S.O. 637(E)18/U/IDRA/78.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 337(E) dated the 16th May, 1977, issued under Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, 19 Netaji Subhash Road, Calcutta-700 001, to take over the management of Messrs Khardah Company Limited, 7 Wellesly Place, Calcutta (hereinafter referred to as the said undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act,

1956 (1 of 1956, shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 169	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210(1)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	-do-
Section 293	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

[No. 22/20/78-Jute]

N.S. VAIDYANATHAN, Joint Secy.